

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जश्न की मेजबानी करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (20 फरवरी, 2020) – सोमवार, 8 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक सिटी हॉल (City Hall) में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ प्रेरणादायक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के जश्न में शामिल हों। इसमें वर्कशॉप्स, जश्न वाली सैर, लाइव प्रदर्शन और हल्का रिफ्रेशमेंट पेश किया जाएगा।

इसकी मेजबानी मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), रीजनल काउंसलर रोएना सैन्टोस (Rowena Santos) और सिटी काउंसलर शार्लेन विलियम्स (Charmaine Williams) द्वारा की जाएगी। इस जश्न में मास्टर ऑफ सेरेमनीज (Master of Ceremonies) के तौर पर सिटीटीवी (CityTV) की क्रिस्टीना होवोरन (Cristina Howorun) और मुख्य वक्ता क्वीन्स प्राइवी काउंसिल (Queen's Privy Council) की मेम्बर और ऑर्डर ऑफ कैंनेडा (Order of Canada) की कंपैनिनयन माननीय जॉन ऑगस्टाइन (Jean Augustine) होंगी। मिस ऑगस्टाइन ने 1993 में इतिहास कायम किया था क्योंकि वे कैंनेडा के हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) में चुनी जाने वाली पहली अफ्रीकी-कैनेडियन महिला थीं।

ज़ोंटा क्लब ऑफ ब्रैम्पटन और कैलडन (Zonta Club of Brampton and Caledon) सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, निम्न प्रकार से कई वर्कशॉप्स पेश करेगा:

- व्यवसाय में सफल महिलाएं (Successful Women in Business)
- राजनीति में प्रभावी महिलाएं (Powerful Women in Politics)
- लिंग संबंधी निष्पक्षता, समानता के लिए लड़ना और समर्थन करना (Fighting for Gender Equity, Equality and Advocacy)
- माताओं को अधिक सक्षम बनाना (Empowering Mothers)
- युवाओं और किशोरों को शामिल करना (Engaging Youth and Teens)
- मन, आत्मा, स्वास्थ्य और तंदरुस्ती (Mind, Soul, Health and Well-being)
- संस्कृति और आस्था के बारे में महिलाओं को प्रेरित करना (Inspiring Women of Culture and Faith)
- STEM में महिलाएं (Women in STEM)

वर्कशॉप्स निशुल्क हैं, लेकिन इनके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें 28 फरवरी तक [corporate.events@brampton.ca](mailto:corporate.events@brampton.ca) पर जवाब देने का (RSVP) अनुरोध किया जाता है।

हर किसी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जश्न वाली सैर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सैर डेली टाइम स्क्वियर (Daily Times Square) से सिटी हॉल एट्रियम (City Hall Atrium) तक होगी। सैर दोपहर 12 बजे शुरू होगी। वे क्वीन स्ट्रीट (Queen Street) के साथ-साथ चलकर, नीचे मेन स्ट्रीट साउथ (Main Street South) जाकर सिटी हॉल एट्रियम तक जाएंगे। अधिकारिक समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। इसमें ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) के पहले के और अब के महिला सदस्यों के भाषण, प्रदर्शन और औपचारिक मान्यता शामिल होगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरी दुनिया में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। इसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ाने की प्रेरणा देना भी होता है। इस वर्ष के अभियान का विषय #EachforEqual है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जश्न के बारे में और जानकारी के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

### हवाले

“पूरे शहर की महिलाओं के विशाल योगदानों के कारण, ब्रैम्पटन का मौजैक रोज़ाना फल-फूल रहा है। यह कार्यक्रम उन साहसी महिलाओं को मान्यता दे रहा है, जिन्होंने ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में सेवा प्रदान की है। यह कार्यक्रम यहाँ ब्रैम्पटन में, पूरे कैंनेडा में और दुनियाभर में, महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पील रीजन में चुनी गई पहली फिलीपीनो के तौर पर इस जश्न की सह-मेजबानी करना, निजी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यक्रम, महिलाओं से होने वाली हिंसा को समाप्त करने के हमारे ठोस समर्थन और शिक्षा प्रयासों में वृद्धि करते हैं। मुझे आशा है कि महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने, हमारी वर्कशॉप्स में होने वाली चर्चा में शामिल होने और अधिक लिंग-संतुलित दुनिया की मांग जारी रखने के लिए, ब्रैम्पटन के सभी विविध समुदायों से महिलाएं व पुरुष, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़ेंगे।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वाइर्स 1 व 5

“ब्रैम्पटन की पहली ब्लैक महिला काउंसलर के तौर पर, मुझे इस कार्यक्रम की सह-मेजबानी करने और उन महिलाओं को मान्यता देने पर गर्व है, जो मुझसे पहले आई और अगुवाई की। शिक्षा, राजनीति और सामाजिक हितों के कार्यों में माननीय जॉन ऑगस्टाइन की कई उपलब्धियों जैसी शानदार मिसालों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारी सभी उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है।”

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वाइर्स 7 व 8

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)